

प्रेस विज्ञप्ति

## एमडीएस प्रवेश परीक्षा 2020 में जामिया की फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री का बेहतरीन प्रदर्शन

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा कराई गई राष्ट्रीय स्तर की मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) प्रवेश परीक्षाओं में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री (एफओडी) के बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) से स्नातकों ने इस बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एफओडी के 4 स्नातकों ने इसमें कामयाबी पाई जिसमें, एक सैकण्ड टॉपर रहा। इस साल एफओडी के कुल 15 स्नातकों ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की एमडीएस प्रवेश परीक्षाओं को पास किया।

डॉ वर्तिका चड्ढा ने एम्स प्रवेश परीक्षा में सेकण्ड रैंक हासिल किया, जबकि डॉ सेहरिश खान और डॉ तान्या बत्रा ने क्रमशः 11 वां और 12 वां रैंक हासिल किया। इसी परीक्षा में, डॉ मोहम्मद अरशद ने ओबीसी श्रेणी में 8 वें रैंक पर जगह बनाई।

इससे पहले इसी साल, एफओडी के छात्रों ने भारत के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में एमडीएस दाखिले के लिए एनईईटी-पीजी एक्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था।

डॉ जया पांडे (रैंक 59) और डॉ ज़ैनब कमल (रैंक 82) दोनों ने नई दिल्ली के मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेंटल साइंसेज में पीरियडॉटिक्स में एमडीएस की सीट हासिल की हैं। डॉ राधिका गुप्ता (रैंक 180) को भी उसी संस्थान में पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में एमडीएस के लिए चुना गया है। डॉ वसुंधरा प्रकाश (रैंक 306) को जीडीसी, जयपुर में पीरियडॉटिक्स में एमडीएस के लिए कामयाब हुई।

डॉ सायमा बशीर को आर. अहमद डेंटल कॉलेज, कोलकाता में और डॉ तबस्सुम को ओरल पैथोलॉजी में एमडीएस के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में चुना गया। डॉ सुकेश कुमार ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (पीजी), रोहतक में एंडोडॉटिक्स में एमडीएस सीट हासिल की।

प्राइवेट कॉलेजों में इस साल एमडीएस में दाखिला पाने वाले छात्रों में डॉ आयशा अंसारी (सुभारती डेंटल कॉलेज में एंडोडॉटिक्स), डॉ शाकिर खान (श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज में एंडोडॉटिक्स), डॉ फरहीन अहमद और डॉ नीतू पांडे (कोठीवाल डेंटल कॉलेज में पीरियडॉटिक्स) शामिल हैं।

जामिया की फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री के डीन प्रोफेसर डॉ संजय सिंह ने सफलता पाने वाले अपने सभी छात्रों को बधाई दी और कहा कि विभाग के जूनियर छात्र इससे प्रोत्साहित होंगे और लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों की उपलब्धियां फैकल्टी को हमेशा खुशी और प्रोत्साहन देती हैं। इस साल एमडीएस प्रवेश परीक्षाओं में कामयाबी पाने वाले फैकल्टी के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। जामिया के छात्रों ने, सरकारी कॉलेजों में 11 और निजी कॉलेजों में 4 सीट पर अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि छात्र किसी भी संस्थान की लाइफ लाइन होते हैं और जामिया की एफओडी ने लगातार अपनी कामयाबियों से विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है।

**अहमद अजीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया समन्वयक